



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 9 राँची, बुधवार, 5 वैशाख, 1940 (श०)
25 अप्रैल, 2018 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 93- 98

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1—क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1—ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

5 मार्च, 2018

संख्या-05/स० भू० धनबाद (DFCCIL)-189/17-963/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2018 में मद संख्या-05 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में धनबाद जिलांतर्गत निरसा अंचल के मौजा-श्यामपुर, थाना सं०-74 के खाता सं०-126 एवं 128 के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा-1.47 एकड़ गैरमजरुआ आम भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) विभागीय परिपत्र संख्या-4306/रा., दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 की कंडिका 2 (i) के अनुसार निर्धारित दर के आधार पर संगणित की गई सलामी राशि 7,05,453/- (सात लाख पाँच हजार चार सौ तिरपन) रुपये मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक दर से व्यावसायिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि 8,81,816/- (आठ लाख इक्यासी हजार आठ सौ सोलह) रुपये मात्र, लगान का 145% सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 12,78,634/- (बारह लाख अठहत्तर हजार छः सौ चौतीस) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 28,65,903/- (अठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ तीन) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर DFCCIL विशेष रेल परियोजना हेतु DFCCIL भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेश:- स्वीकृत ।

- i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, धनबाद प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही करेंगे ।

- ii) उपायुक्त, धनबाद DFCCIL, भारत सरकार द्वारा नदी-नाला के Waterway को बनाये रखा जाना सुनिश्चित कर लेंगे ।
- iii) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि हैं तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- iv) प्रस्तावित गैरमजरूआ आम भूमि के अपयोजन हेतु अधियाची विभाग द्वारा अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाना उपायुक्त, धनबाद सुनिश्चित करा लेंगे ।
- v) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029 भू-राजस्व-107" के अंतर्गत जमा होगी ।
- vi) राजस्व विभागीय संकल्प जापांक-4306/रा0, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-2 (I) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भू-हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।
- vii) राजस्व विभागीय संकल्प जापांक-4306/रा०, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।
- viii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

अनु० -यथोपरि।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-I
भूमि की विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01.	12/2016-17	निरसा	श्यामपुर	74	126	1568 1820 413 128	0.08 0.08 0.01 1.30	रास्ता रास्ता रास्ता नदी
सकल कुल योग							1.47	

अनुलग्नक-II
मूल्य गणना विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या/ग्राम	रकबा (एकड़ में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी (रूपये में)	सलामी का 5% लगान का पूँजीकृत मूल्य की राशि (रूपये में)	लगान का 145% सेस का पूँजीकृत मूल्य की राशि (रूपये में)	कुल देय राशि = (5+6+7) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	12/2016-17	1.47	479900	705453	881816	1278634	2865903
	कुल-	1.47		705453	881816	1278634	2865903

अर्थात् कुल अठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ तीन रूपए मात्र ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग,

अधिसूचना

17 अप्रैल, 2018

संख्या-01/स्था-1-01/2006/04-- राज्य सरकार के कर्मियों को संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ देने संबंधी वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2981/वि० दिनांक 1 सितम्बर, 2009 के आलोक में दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निर्वाचन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित तीन पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में तृतीय एम०ए०सी०पी० लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	नियुक्ति की तिथि	तृतीय संशोधित वित्तीय उन्नयन के स्वीकृति प्रदान किये जाने की तिथि/वेतनमान
1	2	3	4
1.	श्री अरूण कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त उप निर्वाचन पदाधिकारी, गुमला ।	18.01.1984	18.01.2014 PB-IV, 37400-67000, GP 8700/-
2.	श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त उप निर्वाचन पदाधिकारी, साहेबगंज ।	18.01.1984	18.01.2014 PB-IV, 37400-67000, GP 8700/-
3.	श्री बिपिन बिहारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद ।	08.04.1987	08.04.2017 PB-IV, 37400-67000, GP 8700/-

2. यह MACP पूर्णतः औपबंधिक है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय है ।

- (क) यह वित्तीय उन्नयन वैयक्तिक होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है ।
- (ख) इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के अंतर्गत वेतन निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2981 दिनांक 1 सितम्बर, 2009 में निहित शर्तों के आलोक में औपबंधिक रूप से किया जाएगा ।
- (ग) यह MACP मुख्यालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर स्वीकृत किया गया है। भविष्य में यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है अथवा गणना या टंकण

भूल के कारण गलत या अधिक भुगतान हो जाता है या अंकेक्षण द्वारा आपत्ति की जाती है तो भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारी से एक मुश्त में कर ली जायेगी ।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2981/वि० दिनांक 1 सितम्बर, 2009 के अन्य सभी प्रावधान/शर्तें उक्त वित्तीय उन्नयन पर यथावत रूप से लागू होंगे ।

4. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

संजय प्रसाद श्रीवास्तव,
सरकार के अवर सचिव।
